

@shahjahanpurpol

प्रेस नोट:- सराहनीय कार्य दिनांक-11.01.2023

थाना कटरा पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में 50 लाख कीमत की 500 ग्राम फाइन क्वालिटी अफीम व 380 ग्राम मैथाक्यूलोन (चिट्टा) सहित मादक पदार्थ तस्क़र को किया गिरफ्तार

श्री एस.आनन्द पुलिस अधीक्षक जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम व अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु श्री संजीव कुमार वाजपेयी पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तिलहर के कुशल निर्देशन एवं प्रभारी निरीक्षक थाना कटरा के नेतृत्व में थाना कटरा पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई।

दिनांक 11.01.2023 को थाना कटरा पुलिस टीम थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने व रोकथाम जुर्म जरायम, तलाश वांछित अपराधी मे भ्रमणशील थी तभी *समय करीब 23.58 बजे खैरपुर चौराहे से 10 कदम जैतीपुर की तरफ एक व्यक्ति श्यामवीर पुत्र हंसराम यादव निवासी ग्राम नत्थी नगला थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर को 500 ग्राम अफीम व 380 ग्राम मैथाक्यूलोन (चिट्टा) के साथ गिरफ्तार किया गया।* इस सम्बन्ध में थाना कटरा पर मु0अ0सं0 022/2023 धारा 8/18/22 एनडीपीएस एक्ट बनाम 1. श्यामवीर पुत्र हंसराम यादव निवासी ग्राम नत्थी नगला थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर, 2. नन्दराम निवासी ग्राम इमलिया थाना कांठ जनपद शाहजहाँपुर के पंजीकृत किया गया, विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को मा0 न्यायालय पेशी हेतु रवाना किया जायेगा। अभियुक्त से पूछताछ से जो तथ्य प्रकाश मे आयेंगे उनके आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जायेगी।

विवरण पूछताछ-

अभियुक्त ने पूछताछ मे बताया कि नन्दराम ही अफीम लेकर आता था और फिर मैं और नन्दराम बस द्वारा पंजाब जाते है और पंजाब मे रोड किनारे बने होटल/ढावो पर अफीम व मैथाक्यूलोन (चिट्टा) सप्लाई करते है। पंजाब मे अफीम व मैथाक्यूलोन (चिट्टा) की बहुत डिमान्ड है। आज भी मैं और नन्दराम अफीम व मैथाक्यूलोन (चिट्टा) बेचने जा रहे थे कि मैं पकडा गया और नन्दराम मौके से भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्तो का विवरण-

श्यामवीर पुत्र हंसराम यादव निवासी ग्राम नत्थी नगला थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर

फरार अभियुक्तो का विवरण-

नन्दराम निवासी ग्राम इमलिया थाना कांठ जनपद शाहजहाँपुर

बरामदगी का विवरण-

500 ग्राम अफीम व 380 ग्राम मैथाक्यूलोन (चिट्टा) बरामद

आपराधिक इतिहास-

श्यामवीर पुत्र हंसराम यादव निवासी ग्राम नत्थी नगला थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर

मु0अ0सं0 557/2016 धारा 394 IPC थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर

मु0अ0सं0 611/2016 धारा 60(2) EX.ACT थाना कलान जनपद शाहजहाँपुर

मु0अ0सं0 1394/2016 धारा 392 IPC थाना जलालाबाद जनपद शाहजहाँपुर

मु0अ0सं0 460/2017 धारा 393 IPC थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर
मु0अ0सं0 462/2017 धारा 3/25 A.ACT थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर
मु0अ0सं0 528/2017 धारा 2/3 गैगस्टर एक्ट थाना मिर्जापुर जनपद शाहजहाँपुर
मु0अ0सं0 022/2023 धारा 8/18/22 NDPS.ACT थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
नन्दराम नि0ग्राम इमलिया थाना कांठ जनपद शाहजहाँपुर
मु0अ0सं0 022/2023 धारा 8/18/22 NDPS.ACT थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर

गिरफ्तारी करने वाली टीम-

- 1-प्रभारी निरीक्षक धर्मेन्द्र कुमार थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
- 2-उ0नि0 प्रमोद कुमार सिंह थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
- 3-हे0का0 29 जितेन्द्र कुमार थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
- 4-हे0का0 400 अजय राना थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
- 5-हे0का0 79 तैय्यव अली थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
- 6-का0 710 बलराम सिंह थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर
- 7-का0 1792 मो0 सादिक सैफी थाना कटरा जनपद शाहजहाँपुर